

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] मई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 2001 (वैशाख 22, 1923)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 2001 (VAISAKHA 22, 1923)

हम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, प्रादेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 369	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक प्रादेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	367	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक प्रादेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निर्यक्त और महानिजा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधोस्तय कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1983
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	513	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	359
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य प्रायुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2773
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	95
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के प्रादेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के प्रायुक्तों की वसति भाषा सम्पूर्ण	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं	*		

CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	359
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	367
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	513
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	•
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	•
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	•
PART II—SECTION 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•
PART II—SECTION 3—Sub-section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•
PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	•
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	•
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1983
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	359
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	•
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2773
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	95
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	•

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्त नियमों, विनियमों तथा आदेशों और पत्रियों से संबंधित अधिसूचनाएँ

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2001

शुद्धिपत्र

सं० 54-प्रेज/2001—भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में 17 सितम्बर, 1994 को प्रकाशित “सेना मेडल” के पुरस्कार के संबंध में इस सचिवालय की 15 अगस्त 1994 की अधिसूचना सं० 144-प्रेज/1994 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम सं० 20 में नाम “कप्तान अनित कौरा (आई सी-42825), जाट” के स्थान पर “कप्तान अनित कौरा (आई सी-42845), जाट” पढ़ा जाए।

वरुण मित्रा

राष्ट्रपति का उप सचिव

शुद्धिपत्र

सं० 55-प्रेज/2001—भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में 01 जुलाई, 2001 को प्रकाशित “अति विशिष्ट सेवा मेडल” के पुरस्कार के संबंध में इस सचिवालय की 26 जनवरी 2000 की अधिसूचना सं० 76-प्रेज/2000 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

क्रम सं० 18 में नाम “ब्रिगेडियर अविनाश वाल्टर रणसे (आई० सी०-17265), से मे, इंकैन्ट्री” के स्थान पर “ब्रिगेडियर अविनाश वाल्टर रणमिसे (आई० सी०-17265) से मे, इंकैन्ट्री” पढ़ा जाए।

वरुण मित्रा

राष्ट्रपति का उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

(पी० यू० जाड़ा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मई 2001

सं० 4(1)-पी० यू०/2001—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य सरकारी उपकरणों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में 1 मई, 2001 को शुरु होने वाले और

30 अप्रैल, 2002 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए कार्य करने हेतु निर्वाचित किए गए हैं :—

लोक सभा के सदस्य

1. श्री प्रसन्न आचार्य
2. श्री मणि शंकर अय्यर
3. प्रो० एस० पी० सिंह बघेल
4. श्री सुदीप बंधोपाध्याय
5. श्री राम टहल चौधरी
6. श्री अजय सिंह चौटाला
7. श्री शिवराज सिंह चौहान
8. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
9. श्री सी० के० जाफर शरीफ
10. श्री के० ई० कृष्णामूर्ति
11. प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा
12. श्री विलास मुत्तेमवार
13. श्री राजीव प्रताप रूडी
14. श्री तरित बरण तोपवार
15. श्री दिनेश चंद्र यादव

राज्य सभा के सदस्य

16. श्री सुरेश कलमांडी
17. श्री के० कलविकेट राव
18. श्री जीवन राय
19. श्री बी० पी० सिधल
20. श्रीमती अम्बिका सोनी
21. श्री सी० पी० तिरुनावुक्कारासु
22. श्री रंजन प्रसाद यादव

माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा की समिति का समापन नियुक्त किया है।

4, बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002

एम० बाबुशेखर
निदेशक

6. श्री विवेक सिंघल
24, पालम मार्ग
वसंत विहार
नई दिल्ली-110 057
सदस्य

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 2001

सं० 1/3/2000-समिति—सामान्य सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) हेतु, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय का दिनांक 16 मार्च 2001 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है तथा इसमें निम्नवत् व्यक्ति शामिल होंगे :

7. प्रो० सी० एम० क्षेत्रपाल
प्रोफेसर
संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
लखनऊ
सदस्य

8. डॉ० अशोक चन्द्र
विशेष सचिव
माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110 001
सदस्य

1. डॉ० आर० ए० माशेलकर
महानिदेशक
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान
परिषद, अनुसंधान भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली-110 001
अध्यक्ष (पदेन)

9. प्रो० आर० कुमार
फैलो
जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड
साइंटिफिक रिसर्च
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैम्पस
बंगलूर-560 012
सदस्य

2. श्री सी० एम० बासुदेव
सचिव (व्यय)
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
तार्य ब्लॉक
नई दिल्ली-110 001
सदस्य-वित्त

10. प्री० बी० एम० रामामूर्ति
सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग
टेक्नोलॉजी भवन
न्यू महरौली रोड
नई दिल्ली-110 016
सदस्य

3. डॉ० टी० रामामामी
निदेशक
केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान
अडियार
चेन्नई-600 020
सदस्य

11. डॉ० आर० कटोच
सलाहकार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)
योजना आयोग
योजना भवन
संसद मार्ग
नई दिल्ली-110 001
सदस्य

4. प्रो० एम० के० ग्रहचारी
निदेशक
जीव रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र,
यूनिवर्सिटी कैम्पस, निकट जुबली हॉव,
माल रोड,
दिल्ली-110 007
सदस्य

5. श्री एच० एम० सिद्यानिया
अध्यक्ष
जे० के० आर्गेनाइजेशन
नेहरू हाऊस
सदस्य

सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
और
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 9th April, 2001-

No. 54-Pres/2001-Corrigendum—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 144-Pres/94 dated 15th August, 1994 published in Part-I, Section 1 of the Gazette of India dated 17 September, 1994 relating to the award of "Sena Medal" :—

In Serial number 20, the name appearing as "Captain Anit Kaura (IC-42825), JAT" may be read as "Captain Anit Kaura (IC-42845), JAT".

BARUN MITRA

Dy. Secretary to the President

No. 55-Pres/2001-Corrigendum—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 76-Pres/2000 dated 26th January, 2000 published in Part-I, Section-I of the Gazette of India dated 1st July, 2000 relating to the award of "Ati Vishisht Seva Medal" :—

In serial number 18, the name appearing as "Brigadier Avinash Walter Ranso (IC-17265), SM, Infantry" may be read as "Brigadier Avinash Walter Ranbhishe (IC-17265), SM, Infantry".

BARUN MITRA

Dy. Secretary to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

(P. U. BRANCH)

New Delhi-110001, the 1st May 2001

No. 4(I)-PU/2001—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been duly elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on 1 May, 2001 and ending on 30 April 2002 :—

MEMBERS OF LOK SABHA

1. Shri Prasanna Acharya
2. Shri Muni Shankar Aiyar
3. Prof. S.P. Singh Baghel
4. Shri Sudip Bandyopadhyay
5. Shri Ram Tahal Chaudhary
6. Shri Ajay Singh Chautala
7. Shri Shivraj Singh Chouhan
8. Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo
9. Shri C. K. Jaffer Sharief
10. Shri K. E. Krishnamurthy
11. Prof. Vijay Kumar Malhotra

12. Shri Vilas Muttemwar
13. Shri Rajiv Pratap Rudi
14. Shri Tarit Baran Topdar
15. Shri Dinesh Chandra Yadav

MEMBERS OF RAJYA SABHA

16. Shri Suresh Kalmadi
17. Shri K. Kalavenkata Rao
18. Shri Jibon Roy
19. Shri B. P. Singhal
20. Smt. Ambika Soni
21. Shri C. P. Thirunavukkarasu
22. Shri Ranjan Prasad Yadav

The Speaker has been pleased to appoint Prof. Vijay Kumar Malhotra as Chairman of the Committee.

S. BAL SHEKAR, Director**DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH****(COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)**

New Delhi, the 26th April 2001

No. 1/3/2000-Cte—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research has been reconstituted for a period of three years with effect from 16th March, 2001 and shall consist of the following :—

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dr. R. A. Mashelkar | Chairman |
| Director-General | (Ex-officio) |
| Council of Scientific & Industrial Research | |
| Anusandhan Bhavan | |
| Rafi Marg | |
| New Delhi-110 001 | |
| 2. Shri C.M. Vasudev | Member-Finance |
| Secretary (Expenditure) | |
| Ministry of Finance | |
| Government of India | |
| North Block | |
| New Delhi-110 001 | |
| 3. Dr. T. Ramasami | Member |
| Director | |
| Central Leather Research Institute | |
| Adyar | |
| Chennai-600 020 | |

4. Prof. S. K. Brahmachari Director Centre for Biochemical Technology Near Jubilee Hall, University Campus Mall Road Delhi-110 007	Member	9. Prof. R. Kumar Fellow Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research Indian Institute of Science Campus Bangalore-560 012	Member
5. Shri H. S. Singhania President JK Organisation Nehru House 4, Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi-110 002	Member	10. Prof. V. S. Ramamurthy Secretary Department of Science & Technology Technology Bhavan New Mehrauli Road New Delhi-110 016	Member
6. Shri Vivek Singhal 24, Palam Marg Vasant Vihar New Delhi-110 057	Member	11. Dr. R. Katoch Adviser (S & T) Planning Commission Yojana Bhavan Sansad Marg New Delhi-110 001	Member
7. Prof. C. L. Kshetrapal Professor Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences Lucknow	Member		
8. Dr. Ashoka Chandra Special Secretary Department of Secondary and Higher Education Ministry of HRD Shastri Bhavan New Delhi 110 001	Member		

SUDHIR KUMAR, Joint Secretary
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC &
INDUSTRIAL RESEARCH AND
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
RESEARCH NEW DELHI